

(दिल्ली राजपत्र साधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं.13 (07)/2012-क0सं0 एवं भाषा/ 525-532

दिनांक: 14/7/2016

अधिसूचना

फा.सं.13 (07)/2012-क0सं0 एवं भाषा/ : इस विभाग की दिनांक 16.05.2015 की अधिसूचना सं0 13(7)/2012/क0सं0 एवं भाषा/2107-2113 के अधिक्रमण में माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली (अध्यक्ष, मैथिली-भोजपुरी अकादमी), मैथिली-भोजपुरी अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गर्वनिंग बॉडी का निम्न प्रकार पुनर्गठन करते हैं :-

1.	माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री कुमार संजोया सिंह	उपाध्यक्ष
3.	प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
4.	सचिव, (भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
5.	श्री महामण्डलेश्वर उमाकान्तानन्द सरस्वती	सदस्य
6.	डॉ0 टी0एन0 ओझा	सदस्य
7.	श्री जय प्रकाश मिश्रा	सदस्य
8.	श्री उमेश कुमार सिंह	सदस्य
9.	श्री रतन लाल	सदस्य
10.	प्रो. शत्रुघ्न कुमार	सदस्य
11.	सुश्री रश्मि प्रियदर्शनी	सदस्य
12.	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	सदस्य
13.	श्री मुक्ति नाथ उपाध्याय	सदस्य
14.	श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह	सदस्य
15.	श्री कुमार नरेन्द्र सिंह	सदस्य
16.	डॉ0 कुमार राम कृष्ण	सदस्य
17.	श्री कौशल कुमार पाण्डेय	सदस्य
18.	डॉ0 अरविन्द कुमार	सदस्य
19.	सचिव, मैथिली भोजपुरी अकादमी	सदस्य सचिव

पदेन सदस्यों को छोड़कर मैथिली-भोजपुरी अकादमी की गर्वनिंग बॉडी के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

व. वशिष्ठ

(बी0 एस0 वशिष्ठ)
उप सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं.13(07)/2012-क0सं0 एवं भाषा/ 525-532

दिनांक: 14/7/2016

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
3. सचिव, (भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
4. सचिव, (कला एवं संस्कृति), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
5. समस्त माननीय मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
6. सचिव, मैथिली-भोजपुरी अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
7. समस्त सदस्य गर्वनिंग बॉडी, मैथिली-भोजपुरी अकादमी (सचिव, मैथिली-भोजपुरी अकादमी के माध्यम से) ।
8. उप सचिव, (समन्वय) सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-चार (साधारण) में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की दस प्रतियां इस विभाग को कार्यालय प्रयोग के लिये भिजवाने का कष्ट करें ।

व. वशिष्ठ

(बी0 एस0 वशिष्ठ)
उप सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE (ORDINARY))

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
ART, CULTURE & LANGUAGE DEPARTMENT
7TH LEVEL, C- WING, DELHI SECRETARIAT, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110002.

No.F.13 (7)/2012/ACL/ 525-532


Dated: 14/7/2016

NOTIFICATION

F.No.13(7)/2012/ACL/ : In supersession of this Department's Notification No.F.13(7)/2012/ACL/2107-2113 dated 16.05.2015, the Hon'ble Chief Minister of Delhi (Chairman, Maithili-Bhojpuri Academy), is pleased to reconstitute the Governing Body of Maithili-Bhojpuri Academy, Govt. of NCT of Delhi as under :-

1. Hon'ble Chief Minister, Delhi	Chairman
2. Sh. Kumar Sanjoya Singh	Vice Chairman
3. Principal Secretary (Finance), GNCTD	Ex-Officio Member
4. Secretary (Language), GNCTD	Ex-Officio Member
5. Sh. Mahamandleshvar Umakantanand Saraswati	Member
6. Dr. T.N Ojha	Member
7. Sh Jai Prakash Mishra	Member
8. Sh. Umesh Kumar Singh	Member
9. Sh. Rattan Lal	Member
10. Prof. Shatrughna Kumar	Member
11. Ms. Rashmi Priyadarshini	Member
12. Sh Praveen Kumar Pandey	Member
13. Sh. Mukti Nath Upadhyaya	Member
14. Sh. Mahendra Prasad Singh	Member
15. Sh. Kumar Narendra Singh	Member
16. Dr. Kumar Ram Krishna	Member
17. Sh. Kaushal Kumar Pandey	Member
18. Dr. Arvind Kumar	Member
19. Secretary, Maithili-Bhojpuri Academy	Member Secretary

The tenure of the Governing Body of Maithili-Bhojpuri Academy except Ex-Officio members shall be one year.



(B .S. Vashisht)


Deputy Secretary (Art, Culture & Language)

No.F.13(7)/2012/ACL/ 525-532

Dated: 14/7/2016

Copy to:-

1. The Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
2. The Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
3. The Secretary (Language), Govt. of N.C.T. of Delhi.
4. The Secretary (Art & Culture), Govt. of N.C.T. of Delhi.
5. All Secretaries to Hon'ble Ministers, Govt. of N.C.T. of Delhi.
6. The Secretary, Maithili-Bhojpuri Academy, Govt. of N.C.T. of Delhi.
7. All Members of the Governing Body of Maithili-Bhojpuri Academy (through Secretary, Maithili- Bhojpuri Academy).
8. The Deputy Secretary (Coordination), GAD, Govt. of N.C.T. of Delhi for publication in the Delhi Gazette Part-IV (Ordinary). Please supply ten copies of the Notification to this department for official use.



(B .S. Vashisht)

Deputy Secretary (Art, Culture & Language)